

प्रेस नोट

दिनांक 03.01.2023

***थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा देशी शराब ठेके में चोरी की घटना का खुलासा कर अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी किये हुए 122 पक्वे देशी शराब व 33 फ्रूटी देशी शराब, अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त मो0सा0 बरामद* ।**

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांग्हें के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री राजीव कुमार अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद अमरोहा के नेतृत्व एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी धनौरा श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा ग्राम चुचैला कलां में देशी शराब ठेके से चोरी की घटना का खुलासा कर अभियुक्त गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 122 पक्वे देशी शराब व 33 फ्रूटी देशी शराब, अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त मो0सा0 बरामद हुई ।

***संक्षिप्त विवरण*:-**आज दिनांक 03.01.2023 को थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा चैकिंग/गस्त के दौरान सूचना पर चुचैला कला नहर पटरी के पास से अभियुक्त शिवम पुत्र विरेन्द्र निवासी ग्राम पालनपुर थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की हुई 122 पक्वे देशी शराब रफ्तार गोल्ड देशी शराब मसाला उत्पादक धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड धामपुर बिजनौर उ0प्र0, 33 फ्रूटी देशी शराब फ्रूटी धामपुर टॉप बाँस देशी शराब मसालेदार, 01 अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त मो0सा0 स्पलैन्डर रजि0न0 UP23D 4312 बरामद हुई । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मंडी धनौरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई ।

पुछताछ पर अभियुक्त शिवम द्वारा बरामद हुये 122 पक्वे देशी शराब व 33 फ्रूटी देशी शराब को 30/31.12.2022 की रात्रि अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ग्राम चुचैला कलां में देशी शराब के ठेके से चोरी करना बताया गया । उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना मंडी धनौरा पर वादी/ देशी शराब दुकान इंचार्ज चन्द्रप्रकाश पुत्र जगत सिंह निवासी ग्राम मिलक बिकनी थाना अमरोहा देहात

जनपद अमरोहा द्वारा दी गयी तहरीर पर मु0अ0सं0 4/2023 धारा 380 भादवि पंजीकृत है।



***गिरफ्तार अभियुक्त*:-**

1. शिवम पुत्र विरेन्द्र निवासी ग्राम पालनपुर थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा ।

***बरामदगी*:-**

1. 122 पब्बे देशी शराब रफ्तार गोल्ड देशी शराब मसाला उत्पादक धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड धामपुर बिजनौर उ०प्र० ।
2. 33 फ्रूटी देशी शराब फ्रूटी धामपुर टॉप बाँस देशी शराब मसालेदार ।
3. 01 अवैध चाकू ।
4. मो०सा० स्पलैन्डर रजि०न० UP23D 4312 ।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विनय कुमार थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा ।
2. उ०नि० श्री कुमरेश त्यागी थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा ।
3. हे०का० 258 अमित कुमार थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा ।
4. का० 393 रोहित सिंह थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा ।
5. का० 675 योगेश कुमार थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा ।

PRO CELL AMROHA